

[This Question Paper contains 2 printed pages]
यह प्रश्न पत्र 2 मुद्रित पृष्ठों का है।

Your Roll Number.....
आपका अनुक्रमांक.....

Sr. No. of Question Paper : 15224

Name of the Course : ITEP
Unique Paper Code : 2272203602
Name of the Paper : Intermediate Macroeconomics-II
Semester : VI, 2025-2026

L

Duration : 3 Hours
समयावधि : 3 घंटे

Maximum Marks : 90
पूर्णांक : 90

Important Instructions/ महत्वपूर्ण निर्देश:

- Write your Roll No. on the top immediately on the receipt of the question paper
इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए
- Answers may be written either in English or Hindi, but the same medium should be followed throughout the paper.
उत्तर अंग्रेजी या हिंदी में लिखे जा सकते हैं, लेकिन पूरे पेपर में एक ही माध्यम का उपयोग किया जाना चाहिए।

Do many Five questions out of following. Each question carry equal (18) marks.
किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दें। सभी प्रश्नों के अंक (18) समान हैं।

- (a) Explain the Taylor rule for setting the rate of interest by the central bank. How is this undertaken when unemployment is above its natural rate? (9)
 - (b) Can deficits become a way of passing some of the burden of the war on to future generations of the economy? (9)
 - (क) केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर निर्धारित करने के लिए टेलर नियम की व्याख्या कीजिए। जब बेरोज़गारी अपनी प्राकृतिक दर से अधिक होती है, तब इस नियम को किस प्रकार लागू किया जाता है? (9)
 - (ख) क्या बजट घाटे युद्ध के कुछ आर्थिक बोझ को भविष्य की पीढ़ियों पर स्थानांतरित करने का माध्यम बन सकते हैं? (9)
- (a) Explain the concept of Ricardian equivalence. How does it suggest that government deficits do not affect consumption, saving and investment? Illustrate your answer with an example of tax cut financed by future generation. (12)
 - (b) Suppose that the government reduces taxes by 1 unit this year and announces today that to repay its debt, he will increase taxes by $(1+r)$ units next year. What will be the effect of the initial tax cut on consumption? (6)
 - (क) रिकार्डियन समतुल्यता की अवधारणा को समझाइए। यह कैसे दर्शाता है कि सरकारी घाटे का उपभोग, बचत और निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? भावी पीढ़ी द्वारा वित्तपोषित कर कटौती के उदाहरण से अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। (12)

P.T.O.

- (ख) मान लीजिए कि सरकार इस वर्ष करों में 1 इकाई की कमी करती है और आज घोषणा करती है कि अपने ऋण को चुकाने के लिए वह अगले वर्ष करों में $(1+r)$ इकाई की वृद्धि करेगी। प्रारंभिक कर कटौती का उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (6)
3. Explain the role of inflation inertia in determining current inflation. How does past inflation influence present inflation? Derive the Phillips curve with diagrams. (18)
वर्तमान मुद्रास्फीति को निर्धारित करने में मुद्रास्फीति जड़ता की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अतीत की मुद्रास्फीति वर्तमान मुद्रास्फीति को कैसे प्रभावित करती है? आरेख सहित फिलिप्स वक्र को व्युत्पन्न कीजिए। (18)
4. Analyse the effectiveness of monetary and fiscal policy under fixed exchange rates with perfect capital mobility. (18)
स्थिर विनिमय दरों और पूर्ण पूंजी गतिशीलता की स्थिति में मौद्रिक और राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता का विश्लेषण करें। (18)
5. (a) Explain the limits to monetary policy under a liquidity trap (12)
(b) Explain Trouble Asset Relief Program (TRAP) (6)
(क) तरलता जाल के तहत मौद्रिक नीति की सीमाओं की व्याख्या करें। (12)
(ख) ट्रबल एसेट रिलीफ प्रोग्राम (TRAP) की व्याख्या करें। (6)
6. (a) Examine the role of interest differentials and exchange rate expectations in balance of payment. (12)
(b) Explain Purchasing power Parity. (6)
(क) भुगतान संतुलन में ब्याज अंतर और विनिमय दर की अपेक्षाओं की भूमिका का विश्लेषण करें। (12)
(ख) क्रय शक्ति समता की व्याख्या कीजिए। (6)
7. (a) What are the steps that the central bank can follow to establish its credibility for the announced policy? Why is it important for the economy? (9)
(b) Explain the factors on which the evolution of the ratio of debt to GDP depend? (9)
(क) केंद्रीय बैंक अपनी घोषित नीति की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठा सकता है? यह अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? (9)
(ख) उन कारकों को स्पष्ट कीजिए जिन पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात के विकास निर्भर करता है? (9)